



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i).
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 1979/भाद्र 8, 1901

No. 279]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 1979/BHADRA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रख जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मन्त्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1979

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 522(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि गुजरात राज्य के मोरवी मालिया में हाल ही में आई बाढ़ एक महान संकट के रूप में थी, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की क्रमशः मद संख्या 14इ, 19 और 21 के अन्तर्गत आने वाला पेटेंट और सांपत्तिक औषधियों, सूती वस्त्रों और ऊनी वस्त्रों को, जो उक्त राज्य के मोरवी मालिया में बाढ़ पीड़ित लोगों के सहायता के लिए दान दिए जाएं अथवा दान दिए गए धन से क्रय किए जाएं, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :
परन्तु यह सब जब—

(क) ऐसे माल के विनिर्माता द्वारा संलग्न निकासी दस्तावेजों पर यह प्रमाणित किया जाए कि वह

माल उक्त राज्य के मोरवी मालिया के बाढ़ पीड़ित लोगों के धर्म, मूलवंश या जाति या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव किए बिना, सहायता के लिए आशयित है और उसका वितरण मुफ्त और बिना किसी प्रभार के किया जाएगा ;

(ख) माल को विनिर्माण-कारखाने से सीधे ही उक्त राज्य द्वारा सम्यक् अनुमोदित सहायता आभकरणों को भेजा जाता है ;

(ग) विनिर्माता, कारखाने के भारमाधक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के समक्ष माल के कारखाने से हटाए जाने की तारीख से दो मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, उक्त राज्य के मोरवी मालिया के भारमाधक जिला कलक्टर/उपायुक्त का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि माल का वितरण मुफ्त और बिना किसी प्रभार के मोरवी मालिया के बाढ़ पीड़ित लोगों में धर्म, मूलवंश या जाति या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद-भाव किए बिना किया गया है ।

[संख्या 254/79 सी ई/मि. स. 71/26/79-सी एक्स 21]

एस. काक, अवसर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 522(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of the section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that the recent floods in Morvi Malia in the State of Gujarat were in the nature of a major calamity, hereby exempts patent and proprietary medicines, cotton fabrics and woollen fabrics falling respectively under Item Nos. 14E, 19 and 21 of first Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) donated or purchased out of the cash donations, for the relief of the people affected by flood in Morvi Malia in the said state from the whole of the duty of excise and additional duty of excise leviable thereon :

Provided that :—

- (a) it is certified by the manufacturer of such goods on the relevant clearance documents that the goods are intended to be donated for the relief of flood affected people in Morvi Malia in the said state, without discrimination on the grounds of religion, race or caste or any of them and distributed free and without making any charge therefor ;
- (b) the goods are sent directly from the factory of manufacture to relief agencies duly approved by the said State ;
- (c) the manufacturer produces, before the Central Excise Officer-in-Charge of the factory within two months of the date of removal of the goods from the factory or such extended period as the Collector of Central Excise may allow, a certificate from the District Collector or Deputy Commissioner in-charge of Morvi Malia in the said State that the goods have been distributed free and without making any charge therefor among the flood affected people in Morvi Malia without discrimination on the grounds of religion, race or caste or any of them.

[Notification No. 254/79-CE/F. No. 71/26/79-CX-2]

S. KAK, Under Secy.